

Harriet Vork:- Laduli Badhera Path Me Bshan Ping

TB Dem Tali Hote Huye Radua Tali

Schedule XLV-Form No. 134

Under (MHSY) Birics

22405- Or 1011

DIVISION

Name of Agency:- M/S Ravi Const.

SUB-DIVISION

M.B.No-431

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है
कि इस मापिपुस्तक पंजी
में मन्त्रीन द्वारा तंकित 100 (एकसै)
पन्ने हैं जिसे सहायक अभियंता
बरेली के नाम से निगत किया
जाता है।

कार्यपालक अभियंता
रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल
गोपालगंज-2
17/08/19

Sch. XLV-Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

M.B.No 431

Name of Officer श्री विद्याभुषण कुमार

सहायक अभियंता

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Abstract of Cost

8

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Reference Pillars as per drawing — do — do — Qty TMB P-1 Item No-1 Qty = 11.00 Nos @ Rs 1933.54/No = 21269=07					
② Clearing and grubbing road land — do — do — Qty TMB P-1 Item No-2 Qty = 0.81 Ha @ Rs 50148.62/Ha = 40620=					
③ Dismantling of existing structure like culverts — Qty TMB P-2 Item No-3 = Qty = 1.80 m ³ @ Rs 469.47/m ³ = 833=00					
④ Dismantling of existing structure like culverts all complete jobs — do — do Qty TMB P-2 Item No-4 Qty = 24.552 m ³ @ Rs 337.46/m ³ = 8285=00					
⑤ Removing all types of Hume pipes and staking — do — do Qty TMB P-2 Item No-5 Qty = 10.00 M @ Rs 231.69/M = 2317=00					
⑥ Excavation for roadway in soil using manual means at complete jobs — do — do Qty TMB P-4 Item No-1 Qty = 103.80 m ³ @ Rs 77.70/m ³ = 8065=00					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1/8) Compacting Original Ground Loosening, levelling and compacting all complete jobs - do - do - Qty TMB P-4 Item No-2 Qty = 580.50 m ³ @ Rs 21.11/m ³ = 12254.20					
(8/10) Const ⁿ of subgrade and earthen shoulders all complete jobs - do - do - Qty TMB P-4 Item No 3 Qty = 3057.30 m ³ @ Rs 154.02/m ³ = 47088.00					
(9/11) Const ⁿ of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift 1000 m/lead - do - do - Qty TMB P-5 Item No-4 Qty = 1770.30 m ³ @ Rs 149.25/m ³ = 264217.00					
(10/12) Const ⁿ of G.S.B with well graded material - do - do - Qty TMB P-6 Item No. 6 Qty = 704.242 m ³ @ Rs 2914.57/m ³ = 2052563.00					
(11/13) Const ⁿ of WBM Grd II all complete jobs - do - do - Qty TMB P-7 Item No-1 Qty = 506.248 m ³ @ Rs 4081.44/m ³ = 2066221.00					
(12/18) Const ⁿ of CC pavement P.CC M300 grade - all complete jobs - Qty TMB P-7 Item No-2 Qty = 306.00 m ³ @ Rs 7306.97/m ³ = 2235933.00					

Continuation

Continuation



प्रयोगशाला :-

पथ का नाम—लरौली बंदेया पथ से बिशुनपुरा से अनुसूचित जाति टोला होते हुए बाइदा टोला तक
पैकेज सं० —48
संवेदक का नाम —मे० रवि कन्स्ट्रक्शन
अधिवक्ता नगर, गोपालगंज





मुख्यमंत्रीग्रामसम्पर्क ब्रिक्स (एन.डी.बी.) बैंक योजना


सड़क का नाम - लरौली बंदेया पथ से बिशुनपुरा से अनुसूचित जाति टोला होते हुए बाड़वा टोला तक
पथ की लम्बाई - 2.700 कि. मी. प्रा. राशि - 177.21 (लाख)
पाँच साल तक रख - रखाव की राशि - 18.10 (लाख)
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 08-03-2019
कार्य समाप्ति की तिथि - 07-03-2020
संवेदक का नाम - रविकन्स ट्रक्सन अधिवक्ता नगर (गोपालगंज)
कार्यकारी एजेंसी - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र. - गोपालगंज - 02
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा सम्योषित, परियोजना



बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जिला-गोपालगंज

सड़क का नाम-लरौली बड़ेया पथसे विशुनपुरा से अनुसूचित जाति टोला होते हुए बाड़वा टोला तक
पथ की लम्बाई- 2.700 कि.मी.
पुलिया- बी.टी.- सी.सी

सड़क पैवमेंट का विवरण



सड़क का (काट खण्ड) विवरण

- बंधान का मिट्टी कार्य- घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ
- दानेदार उप आधार- घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ
- बालु- घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
गिट्टी- घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
- WBM ग्रेड III 75 MM
गिट्टी- घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
मोरम- घन मी. (ट्रक के समतुल्य)

4. डामरीकृत-

प्रायमरकोट-

200 लि. पूर्व से मिश्रित कारपेट 20MM मोटाई में मिश्रित (ट्रक के समतुल्य)